

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II -- बख 3--उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 24] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 1, 1973/माघ 12, 1894

o. 24] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 1, 1973/MAGHA 12, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह असंग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

CABINET SECRETARIAT

(Department of Personnel)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st February 1973

G.S.R. 49(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951) read with Rule 11 of the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 1954, the Central Government, in consultation with the Governments of Manipur and Tripura, hereby makes the following amendments to Schedule III appended to the said rules.

2. (1) These rules may be called the Indian Administrative Service (Pay) Third Amendment Rules, 1973.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

3. In Schedule III appended to the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 1954, under the heading "A-Posts carrying pay above the time-scale under the State Governments" against "Manipur and Tripura", for the entries :—

"Manipur	Chief Secretary	Rs. 2500—125/2—2750"
"Tripura	Chief Secretary	Rs. 2500—125/2—2750"

the following entries shall be substituted, namely:—

"Manipur	Chief Secretary	Rs. 3000"
"Tripura	Chief Secretary	Rs. 3000"

[No. 5/33/72-AIS (II).]

SHRAVAN KUMAR
Jt. Secy.

संविमंडल सचिवालय

(कार्मिक विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 1973

सा० का० नि० 49 (अ).—भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, 1954 के नियम 11 के साथ पठित, अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार मणिपुर तथा त्रिपुरा सरकारों के परामर्श से, उक्त नियमों के साथ संलग्न अनुसूची III में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है।

2. (1) इन नियमों को भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) तीसरा संशोधन नियम, 1973 कहा जा सकता है।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

3. भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, 1954 के साथ संलग्न, अनुसूची III में “क—राज्य सरकारों के अधीन समय वेतनमान से अधिक वेतन वाले पद” शीर्षक के अधीन” मणिपुर तथा त्रिपुरा” के सामने:—

“मणिपुर मुख्य सचिव रु० 2500-125/2-2750/-”

“त्रिपुरा मुख्य सचिव रु० 2500-125/2-2750/-”

प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जायेंगी, अर्थात्:—

“मणिपुर मुख्य सचिव रु० 3000/-”

“त्रिपुरा मुख्य सचिव रु० 3000/-”

[सं० 5/33/72-अ०भा०से० (II)]

श्रवण कुमार, संयुक्त सचिव।